



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2017/श्रावण 4, 1939

No. 658]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2017/SRAVANA 4, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

संख्या 73/2017-सीमाशुल्क (गै.टे.)

**सा.का.नि. 954(अ).—**सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3, 4 और 5 के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 75 की उपधारा (2) और (3) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 131/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 31 अक्तूबर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1018(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, को संशोधित करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, 'नोट्स और शर्तों' शीर्षक के अंतर्गत, क्रमांक 12क के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(12क) उक्त अनुसूची के कॉलम (4) और (5) में दिए गए प्रतिअदायगी की दर और सीमा किसी वस्तु या उत्पाद के निर्यात पर तब लागू होगी जब निर्यातकर्ता निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करेगा:-

(क) (i) निर्यातकर्ता सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उप आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष इस बात की घोषणा करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसकी संतुष्टि के लिए सिद्ध करेगा कि किसी निर्यात उत्पाद पर या किसी निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त आदान या आदान सेवा पर केंद्रीय माल और सेवा कर या एकीकृत माल और सेवा कर का इनपुट क्रेडिट नहीं लिया गया है और न ही लिया जायेगा; अथवा

(ii) यदि वस्तु का निर्यात एकीकृत माल और सेवा कर के भुगतान के तहत किया गया हो तो निर्यातकर्ता इस बात की घोषणा करेगा कि निर्यात उत्पाद पर भुगतान किए गए एकीकृत माल और सेवा कर के रिफंड का दावा नहीं किया जाएगा;

(ख) निर्यातकर्ता सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उप आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष इस बात की घोषणा करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसकी संतुष्टि के लिए सिद्ध करेगा कि निर्यातकर्ता ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत निर्यात उत्पाद पर या निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त आदान या आदान सेवा पर किसी सेनवेट क्रेडिट की राशि को अग्रसारित नहीं किया है और न ही किया जाएगा।”;

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू हुई समझी जयेगी।

[फा.सं. 609/64/2017-डीबीके]

आनंद कुमार झा, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 131/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.) को सा.का.नि. 1018(अ) दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 59/2017-सीमाशुल्क (गै.टे.), सा.का.नि. 724(अ) दिनांक 29 जून, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26<sup>th</sup> July, 2017

**No. 73/2017-CUSTOMS (N.T.)**

**G.S.R. 954(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with rules 3, 4 and 5 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, the Central Government hereby amend the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 131/2016 - Customs (N.T.), dated the 31<sup>st</sup> October, 2016, published *vide* number G.S.R. 1018 (E), dated the 31<sup>st</sup> October, 2016, namely:—

In the said notification, under the heading ‘Notes and conditions’, for serial number 12A, the following shall be substituted, namely:—

“(12A) The rates and caps of drawback specified in columns (4) and (5) of the said Schedule shall be applicable to export of a commodity or product if the exporter satisfies the following conditions, namely:—

(a) (i) the exporter shall declare, and if necessary, establish to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, that no input tax credit of the central goods and services tax or of the integrated goods and services tax has been and shall be availed on the export product or on any of the inputs or input services used in the manufacture of the export product, or

(ii) if the goods are exported on payment of integrated goods and services tax, the exporter shall declare that no refund of integrated goods and services tax paid on export product shall be claimed;

(b) the exporter shall declare, and if necessary, establish to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, that the exporter has not carried forward and shall not carry forward the amount of Cenvat credit on the export product or on the inputs or input services used in the manufacture of the export product, under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).”

2. The notification shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> July, 2017.

[F. No. 609/64/2017-DBK]

ANAND KUMAR JHA, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 131/2016-Customs (N.T.), dated the 31<sup>st</sup> October, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 31<sup>st</sup> October, 2016 *vide* number G.S.R. 1018 (E), dated the 31<sup>st</sup> October, 2016 and was last amended *vide* notification No. 59/2017-Customs (N.T.), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 *vide* number G.S.R. 724(E), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017.